



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 645 राँची, गुरुवार 20 अग्रहायण 1936 (श०)

11 दिसम्बर, 2014 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

10 दिसम्बर, 2014

संख्या-1/सी0-208/2013 पार्ट का.-11592 --सचिव, कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित श्री सुनील कुमार वर्णवाल, भा.प्र.से. (झा:97) को भारत सरकार, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली में निदेशक के पद पर प्रतिनियुक्ति के फलस्वरूप सचिव, समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित श्री राजीव अरुण एक्का, भा.प्र.से. (झा:94) अगले आदेश तक अपने कार्यों के साथ सचिव, कल्याण विभाग, झारखण्ड, राँची के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

आभा काँशी,

सरकार के संयुक्त सचिव।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,

झारखण्ड गजट (असाधारण) 645—50 ।